के स्व.लामनज.हलति.वं.वकवि मदानिनी.थनचूर्णुयादनथलनवालंन.॥
स्वरद नस॥ ॥जालिसानहव.यिंपलि नकम्याल.कसासियाहव नवा
सलाम कल्हीनवालंनयान.किंनवयास्वनथडनीव॥ ॥नवकक्नज्ञायम
रुयक॥ ॥दलम्वं वाह्नसियाक्हड.जनमांसि.का०यर्च.लंखवनद्वंलय
नयाय.नवकक्नास॥ ॥लयम्.नूयकमले.न कयाल.श्रीखडु.मिंदिसि.थ्रू
नीमि.सारवलवडलि.चूर्णुयाय कल्हिनवालंन.नवकक्नास॥ ॥यीं०याहा

स्वयनसयामलि नयाय.चाक्नवालंनक.नवकक्नदयकथ॥

क्वाक.दवदाक्सिमन.ल्वाद.साहन.यूवाकिसनालीसद्स्यं कल्हिनवालंनाड
न.नवूनव.नवकक्नास॥ ॥कलसायाद.थंसि.गस्व.मरव.नसींमल.नव
कक्कलूयीवधनस क्षाद्दलय.क्षविकलूयमरुयक॥ ॥स्वासहा.शाल.लप
नमीनयाप॥ ॥क्षाकद्याहा.कायदमधाडयाव.मादसचस्यं नगवि
कुभामनास॥ ॥गुडगुमंरगुडिमंर.चूर्णुयादन.थंलकंनकाकक्षायमान
कं.हायचावनास॥ ॥यंगुनिमि.यूनानव्यनजामि.स्वल्थ थनस्मलागयाहाव

मानक डायचावनाग॥ हंगपालहा मनचग्नतङ्कि धूमकेलखसङस्यं काया
दनथादछिस्यं जवक्रासमस्वंम खवक्रासमस्वंम थदन मूयक्मानताग॥ ॥
घल ता र्यंतुनिसिस समलाग स्वंधनङस्यं वाधान म्ह० ज्ञाकनाग॥ ॥ध
इस० रमसयाद्रू वथादाक सं भगधनीयानडनी धनमसकूयदायक॥
धनवूय म्ह० ज्ञाकनाग॥ ॥ कनबीनसकिड यननस मर्दनयंवासानं यनन
यननताग॥ ॥ ज्ञादनवाल हकजालिव नर्हियादन यननताग॥ ॥ हंग

[illegible]

ना

धनर्ङ्गनाथयक॥

याहा वकनवा वूंदनं नवनवयानयालावजमा॥ ॥सिमिग्वालसिंयाहा वंभिंसिय
हा काकदनलयाहा जूर्वसिंयाहा धनमसकूगायाहा वानडादनस्यं वाकदन
नया कदहायक॥ ॥याथाति म्हानसिया वि मिहासयादनं हूलदयू॥ ॥
घनसिमयाहा धनबानसयाचाननयाववाय कूनदाकयार्हि॥ ॥कूसखाया
मिसकूयाव यिंयलिवा समयाद कस्तिनवालंनकं हिकूयार्हि॥ ॥म्हनावन म
नव वोल गंखबुन धनमयलानयादनयावयाय सनकक्रूयार्हि॥ ॥डक्वनपल

मिखाथाक

कमन। आनागसखिति मयाव छठिकादयक। गलकाव। थानाव मिखासयायं
नव। सिथनमव। ह्निक्सं थानसं। मिखान मखस ववभगनाव मभ॥ ॥ थूपा
मार्गसा। स्यंध्म। शिउलर्ं दास। ईथाल। कनिंरमिनमरनयं। थानाव। थन नि
खास थ६न। मिखस्याक नायूव॥ ॥ उलिनाया। खाद्लखन। मिखास सा ना
व खासमिदान। मिखास्याकमदू॥ ॥ दवदानर्हि। थानसयाथास थानाव। मिखा
स थ६न। मिखास्याक उदानननायिङा॥ ॥ यिंपलि। कउवर्तिसियाकद। वय।

मिखानमसङ

नक्रवहुन। हलति। मलगयाहव। मूनिलखनहस्यं। वलिदयकं। मिखाथा
लन मिखास्याक नालंख॥ ॥ क्सथांउ। कलिनर्विमलनयं। मिखास थाना
न। गनिकान नाव॥ ॥ वहलतयामउ। छ्कलाहंस। मिखायाद्दनहस्य
यिनक्षा। मिखासथह। मिखाथूनिनूवनायूव॥ ॥ तुंउयाल। थानसयाथास
थानाव। मिखास थ६न। मिखानमखहमिखहिं थानायिव॥ ॥ कसूनि। लखस
थानाव। मिखास थ६नहिंथानायिव॥ ॥ वूवनकायामान मिखास थालन। थपवन

मिखाथूमिखा। मिखानं।

हावलाव॥ ॥हिंगुन, मिस्यास वालन, यव्ठ हावव नावय॥ ॥लूंडाहानमिखान
वालाव, ठुंस थंक्षास्यं हन, क्विन कनं थिवठ हाव मिखा, हिंसा नायव॥ ॥नाजहं
वलाहा, पूवाक्व सनागानक स्यंतानक, हिझाक यानाव॥ ॥डिविझायूमनिन
यावतानकं, हमिनिनहाकयाहिं॥ ॥म्हंवयू, पलयू, क्षलखाना ङाह्वल, पूवाक्वत
सहास्यंतानक, थंकावं म्वयाहिं॥ ॥लवह जिनहाल, वूपकम्ह, वयसयामलिध
नसमलागवूर्लुयाहन, कक्विन वालं, नक, थंकाव न्मयाहिं॥ ॥भूलगुहा, वनक

हा, नक्का, दूनानंल, धधमाहिंनकं, क्वा २ याहाव, क्वा ० दास्यं भाहन, हसनयी
नस्याकयाहिं॥ ॥मनच, पिंपलि, ठुंठि, डिलि, हकूडि, यमूनि, सन्धू, वलजि, सवाक्व
ल, कंचयाल, क्षलखाना, गंडि, वूर्लु, क्वाकलंखस ह्वयतान, हसन भजिर्लु यानका
दवयाहिं॥ ॥मनच। डिलि १ ठुंठि १ पिंपलि २ पिंपलामूल २ सन्धू २ हकडिलि २ सिंपि २
वनकहा २ तालिसि २ न्यक्षाल २ वूयक्वगल २ सीस १ क्षलवि २ सवाक्वनज, क्वालंखस ह्व
स्यंतान, हसन भजार्लुनयीतक्वादवयाहिं॥ ॥कक्वनयाहा, कंचहलडिसम, लंखनहया

बयाय, दुइयाननमदनक, दुइस्वचकथ॥ ॥पुलीधनयाह्ल(माममीनस्यीगादनक्ना
सगथंहन। गनगुनाव॥ ॥समस्रूपनादिनयाह्ल। साधननवाननस्त्री, गनगुना
कव॥ ॥चिह्नया नानवक्व बून, थचक्व क्वासथंहन, गनगुसयाहन, नावदंना॥
कुसिक्वा० दास्यीमाहन, नवथमदाक्व हवव गनगुनाव॥ ॥रवयन, ॐछमिलि, ववकनत
कालांनखान, मिनजलि, दुवाकमासह्वास्यीमानक, नक्वानिसानासा॥ ॥यायागु, हनठथ
यवा, ॐ छिमीदि, सिंधनवक्विन, धुन बाग्रयनायंबून, भनपुकयाह्लिं॥ ॥हनठ, हाम

ल, ह्लीथा, मिचकिसि, नांव ॐ छिमाति, नांमी३ लंख कुठ३ साइइकुठ१, वक्वस्र२, धव
क्व दुइसभनन, दुइयनन देहनाम॥ ॥कुकूलि, हनठ, याख्वंरनहस्यी याय, ददुया
ननयाह्लिं॥ ॥नक्वयी स्वानहन, स्वायांजवसयाह्ल, हकगीचि, इइसयाय, दुइयानन
नास, नवूकहयाना॥ ॥गनाकिमियाल, वाळूठया, वंथह०मं, कापाठस, याठविस्यीं
कुवकं, सानकाथे॥ ॥श्वाहुवंकनपु, नस्यीमानकं, सानकाथे॥ ॥वठसियाह्ल, ना
सथंहनस्यी, सानकाथेजिव॥ ॥स्वनवशानह्ला श्वाहुकान यस्यीम। सानकाथेजिव॥

जायनयमदथा

क्राकनहा, मामलहान, कूवक, सानकाथ॥ ॥वाभूनयंहन, भिसायादद्दनडस्यं
लपनयं, जायनयरूयिव॥ ॥श्वादगहा, लंबनडस्यं, थंहूसलयनयं, ननानंवू
यिव॥ ॥काकरंगलहा, कायठस, सावकं, धवविस्यं, मूलवाबाकास, क्रायाव,
विकटिम, ऊककठम्वठन, स्वंदुकानविस्यं, ननानंवूयक॥ ॥माचावालठास्यं, नक
साधनयं, हिकामदन ठास्यं, ऊंवनमूयामलिमंग उखादूलंखसनस्यं, कलिचिराम
क्लूडनमानक, हिकामदल, माललययकडकमरव॥ ॥मगमीन, थुपि, धनकू

वालैपकनाल, मामयाय न ला या

थंडनं वालयहयीतानास॥ ॥दुंविनिहा, स्वाखिमचस्यं, वालकया, स्वाहूयावनाग॥
महाकूगहा, कालहा, ऊनछुहा, मसबालता, समलागचूर्णुयाडन, मंलव धाल॥
धनसाखनन वालैनकं, मामयायंग स्यालरिंग॥ ॥लिंकहूवि, सिंघागक, जिउलि
काधयल्वं, उस्तल, ऊंवनहा, मूलंवहा, समलागचूर्णुमंग २ धाल॥ साखल, सादूद्दन
वालैमानकं, चिकीभावावायाव, मामयागनीनमछिस्यं थाडनाग, थडाग्रमानकं
नावनासं॥ ॥ववकनहा, लंखनडस्यंमानकं, यमनल, धूम्वाछनल, म्यालंवानलहि॥

०नक्कयाव, कस्तिन वाल, मार्म्मसलपनयं, यखालङयीवथ॥ ॥जालि, हकजिलि
पिमूलि, समरागचूर्णुयाङ, अम्लमक्षि०ानगुलिविङावनस्यनं०ला, हीनपीन
ठकच लानं॥ ॥पलासवीज, पिमूनि, नस्यंयाङन, क्रिमिनाश॥ ॥क्काढूरगुवायू,
पिमूनि, लंखनङस्यंयाङन, क्रिमिनाश॥ ॥मिवकिमि, तुलसी, पूंवल, खुटिदमलक
व हलति, कुष्ठमीति, नींमंन १४ भलचक्कपु १ थपूङनलिं कक्कूनाश॥ ॥निम्बह
ल, कूंवल, समलाग चूनयिनिक्कानस्यं, नवज्वर, कृमिनागनाश॥ ॥सिंधन गुगुलि

नसाञ्जन, थूनि, सथ समलाग, पलकासा खुंङ, थसानमचन, कृमिकृमिनायूवा॥
वमखला गर गुडगुर हनङ १ मालीस १ थतयाङयाङनं, कस्तिनवालंनकं मेर
पिनक्कानकं, हीङल्थंकायया॥ ॥वहनिहल, स्यंक्ष, कुष्ठमीदि, लंखनङ
स्यं, क्कासस थंङन, कूडदपिव॥ ॥ह॥ ॥सहदवला, मनायाल ला जंसच
स्यं, सर्वनागनास॥ ॥था, नयाव, विमिलिनाव, लाक्काढू, सवालचाका, माक
थनङा स्यंभसा, कूलसवालङास्यं, लूंडपिव, नाम, हलगङ्वाघाचथ, भगु

व्वंदया, आसनथ॥ ॥वतसिं यास क्वन्धकालवनस कास्यंहय, थयाहलं या
धनयाकड, छिर्यंड, ङूष्ठमिठि, मठथि नीलहलवि, लाहा, कुंकुम, थासम
लागन, लंखनकस्यं, डयननयाहन, मिहावनिश्रुतिलिनीव॥ ॥हलव, क
सूनि, उठया, वकनहा, ख्वाकूलंखनकस्यं, घारसयाव, घालेडयकं, यसनागलप
मकू॥ ॥श्रूयामार्गहा, वितकहा गुठि, ख्वाद्या, कसूनि, हनव, न्वलजान वालंत
व, श्रूनसभागयाहिं॥ ॥यंपलि, डिस्याल, लवह, हलव, वहलव, श्रूवल, डिनी

हकजाति, स्रकम्याल, श्रूदस॥ हाखलक्कतायाखूद, कम्ति नवानन, कलस
स्रस, मातस्याक, थनकव॥ ॥कूटवीज, श्रूतिनस, कसून, वाल, डंखाल, नकव
न्वन धलिखान, भलखाला, वाञ्चुतयां, थनस्म लागन, लंखन गायकावसं
वासक्किवा दयकाव, वामन श्लायदायकं, दुनकंभानकं, हिखिस्वाकयाहिं
गमग्रूनहलत क्वा०दायाव, तिसूनकाव, नतयूथ, कूट, वुनयाठावस्वाहं गनकं
हलतनयाव, क्वथूसभ, क्वथूसक क्वयाव, क्वथन हूनकं॥ ॥जीनस्याल, याग

[illegible]

काम, कूट, लवद्दत्याव, ॐलासिपायू, धमस्मलामयाहाव, लंखनद्दर्यं, कूथू सप, कूथूनमदयकूथौ॥ ॥लिमखानसिंहा, काकमगलहा, कूकासिंयाहा, ध नमाहकूलामायाहा, यान [illegible] दगर्हे, जयांदनन वयानावा॥ कोउहायर्क॥ ॥ सिंदूव, स[illegible], लि[illegible] [illegible] [illegible] कनर्हेन, समकौकक्कदव॥ ॥वासिंयाद, थुर्यं सु, कूदसि ममला[illegible], लखनद्दमा, [illegible] [illegible] वकमय, मा[illegible]मतलै, कूथवा कूयाम[illegible] याथ, हामलवक्कू[illegible] [illegible] [illegible]लिन मकुख्याविवाल॥ ॥इति

[illegible]

[illegible]

उ, मिन[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], धन, [illegible] [illegible] वकननर्तनन कूनविमावकक्कयासमह्मउकक्कदव॥ ॥लखिंतुदन कूसित्वविक्षिप॥ ॥ नातिकाम्हमसंवहान यावया यक्कायिडक॥ ॥कूसमित्रिन[illegible] लखवडिमिमं ४ [illegible]वसमं ८ कूर्नुयाद्दन सिलानयाद्दनमर्चं, [illegible]मजकव॥ ॥ बालकया। कूविनीया वया, कूकम[illegible] [illegible] [illegible]लिदि[illegible] [illegible] [illegible]याव कूमागीकूउनवय जयनयमक्रुध॥ ॥[illegible] [illegible] [illegible]स्वाहा॥ थौथक्कि क्किपन धमक्कनक्रमर्य

[illegible]

घातबाव, म्हगतिमान

थि, कारवाचक ॥ थ्वचकृ वा य ॥ ॥ कपून जीतस्हल, चव, कँकाना
कवसकउ, धनस्मरागयाव्हाव तँरवनछ्याव थुलि त्विन, नमस
नकँ, धनयान, थ्यामचाव, थ्यँनसहिँ ॥ ॥ तितिपू सियाव, चूर्लुयाव्हाव
कायाउसथयाव, यूनानखानवालाव, म्वउत्तायाय धनकँ म्हउ चिहानगम्ह
क्षिनकूम्हउ धालनक, मूत्रातिसानयाजूतिहिँ ॥ ॥ मूपामानहामँ ४ सँह
नसियारवानामँ ४ कँचहलतिमँ ४ मितकिसिखानामँ ४ ऊँ छमी तिमँ ४ वाय

घातबा

कनप्र १ सिवुमधूर तिदायकावजकनम वाग्र दायक, लँचगुनहाव मस
कँ धानयावकनथहिँ ॥ ॥

गुपि

१ मलच १ वब्व हँ : म्हरवान : जि : हक जिल : कगुल : हव ॥
॥ ॥ सूव : पियमा : बमलाव : लव ॥ नवलाच ॥ गुकमात ॥ ॥
आयहल ॥ आयपहि ॥ लूप कँ मल ॥ ॥ [illegible] २ गमराग ॥ ४ ॥
पूर पिपलि ॥ क २ हृद्य २ मास्व ॥ जू २ घत ॥ नू २ क स्री ॥ पिपलि

१ मलव॥मं ॥ग्वश्वहं॥ ॥ किन कला ; भिरा पिपलि
:मलव : हकडिल : तिपि : ॐ मं : म्रक्ष: हिं : गल
दहगं ठि : वृक्ष याय : नकं : गसं दनाव॥ ॥

नामव द्धलङ मल सिना

[illegible] नमवांद्धु [illegible] : काल नान नम नास दवाय नम
[illegible]

१ कपूर, पाधन मधनस्नाल, कस्तुनी, हियति, पिपली, सान्धू धनं चूर्लुयाचन, धनलिंग,
मगलाव संभोगयानचाव, जीवदभाल, मिजनशालसं महयकेङना॥ १ ॥ नकिंजनमांसि,
कन्दलाह, जगुली, लिनखान, धनस्मलागननयावश्चसनलान सर्वसोलान्नह्यिङा॥
॥ २ ॥ संभोगवीर्य्यकायाडा, स्त्रीयास्वदलिम, बवलास, नलकं धनन धवज्ञायनङयिङा॥
॥ ३ ॥ पनंजालिहा, थंजादिमम्ननी, यांगुलंलाव धनसङ्गायंचमलनवालाव नकं
स्त्रीथवज्ञायनयाय॥ ४ ॥ माकदयालिंगवा थववीर्य्यवा, म्हलसनर्सनकान, स्त्रीथवज्ञाय
नङयू॥ ५ ॥ म्हलंलाचूर्लुयाचनयंचमलवा, धलिङ्गवनकंगसिद्धिवलिकर्म्मथ॥ ६ ॥ नकं
कंचूकियाहन, छयान मलकायाव, यक्षमलनवालाङा नकं, थवज्ञायनङयूङा॥

१॥ वलषनिखि, सुंधा कस्तिन वालावनेके मिसहृतुकंकूहाव लिंगसयेले लेयसं शागयान: हाव: स्नीथवआयनयाय॥८॥ कपूर, कुंकुम, माकदया लिंग कस्तिन भनलयं लिंगस गला वसंलायाहनस्नीथवआयनशंकूव॥९॥ त्रिफल, सार्जन, यावन, पिपली, कुष्ठ, वनघूनि, खि, कस्तिस भनलयं लिंगस गलावसंलायाहन स्नीथवआयनशचूर॥१०॥ ग्वखवून याथया हथून मलवलान थनायसहाकक॥११॥ कुष्ठ, कुंकुमोति, दंसयान कर्कटाभि, माहन ति मिच, आयुसना, धायवक्रवून, धानयानावायकतु॥१२॥ धायवक्रस, वाहचामकाल थव क्रनयास धानसनावूयकचक्रथ॥१३॥ जीलखान वक्रथन क्रस क्विजवया॥१४॥ धायवक्रस, माहनहन, सूर्य्यया खयाय, थव क्रक्रस क्विजवया॥१५॥ धायवक्रस, पा खयाहाव, उतमसस, नयावक्काय दायक, क्रस क्विजवया हिं॥१[illegible] [illegible]वनन्धनया व, मिथन, क्रस क्विजवया अतिहिं उलमवाथ, वालकयाक हक्का लिसालामाल॥ मिनखानमिया, सुतिकासी, मिलानमनडाहयाव, थक्रसस थहं, क्रस क्विजवया, क्रस न्याक कक्रडाङ्गायानावथं॥१८॥ जिलीखानहन, लेखनहसं, कायदस थाय कक्तिक्वाह, क्र सस थन, क्रस क्विदवक्रनावथं॥१९॥ सुतिथ्यासूयुतिथान, कुंथहन, दरुविय श्रीसूर्य्य उदयमशवमालहदनेमचावरान॥२०॥ धमशानसयाथान, सुसमिया हानयाव, लिंग सयहखिनिमानकान, याथानशमालतनिहपिंडासंल॥२१॥ ॐनमःशिवाय॥ ववद खान, दुदुसदयाव, सारवलय१ दुईत, वक्ति२ माह मासडयवासन थानहयक॥

ऋयाम [illegible], धनसकानावननयाद, नच्छिडयवास्तनथान स्वगकर न

वीनयाहा, म्वाचसदूंथदनक, अ[illegible]सावन[illegible]यकथं ॥२३ ॥तुमान,

निननस्यं भाजुसनिस्यं, सिनायक ॥२४ ॥[illegible] लिहा भावनास्यं

म्थननि दूधन दननिमातसनल, मिमदय [illegible] ॥२६ ॥ [illegible], थिन नि, नि

वूर्लुयाद, जान वासावनके, अडार्लुनाव [illegible] ॥ [illegible] नि[illegible]न

[illegible]स स्कुय, कंगुस्वंपुसवंकनानि ॥ २७ ॥ वत[illegible]

यमहा, म्वाद्का नस्वथानसविस्यं, सानस्थ ॥२८ [illegible]

नका।थ ॥ ३० ॥ वंघजानानि मानदसानस्थ ॥ ३ [illegible] नानय[illegible]

[illegible] हा सिबाव, [illegible]नि नंस्व, नस्यं स्वग, नद्रस[illegible]

नद्र निविनवानि[illegible] [illegible]गनूदायसनिवक्रुमनद[illegible]

[illegible]सक जिद्द[illegible] नवनानियुसनमास्र ॥ हा[illegible] ॥

न[illegible] कसान [illegible] ॥ ७ ॥ आदिग्य वाल[illegible]

[illegible] मनयानका ॥ ॥ स्यंतुलिहा [illegible]

[illegible]७ ॥ थ्यकनतमलि, कपून, कुंकुम [illegible]

[illegible] लिजुनसम [illegible], मिवास[illegible]

समजे[illegible]नि, उमलहा, [illegible]नाव

श्रीऽरली म (ं ननमस्काय

लि मा मा म लि ऊ ना मम म

नोनायर्नं नमस्कृत्य, ननं श्वेव नव

ध्वीयनस्वनींश्वेव, ननाऊयग

खयनकृत ॐ ह्रिमातिक्रा ॥ श्रीखगुडन नहावाल, भजन ॥
न्तूपकमल, जीनक्वान, नकि, जटामास, लवड, कहुवि, न्वय,
यवगुतिविन ॥ लंखकृत १४ द, नर्घदायक, वाद्याव, वाध्क्वाय, न
तिविन ॥ ॥ ॐ ॥ वालकम्रधिन वावया ओषधि ॥ कुंकुम, त्मगावनन,
लायीनवस्मसयाउया नयाव, कमनीमूतन, वय, जयनयमन्तु ॥ ॐ हि
म स्वाहा ॥ यक्ति ह्रियन मनुनक्म ग्रहिक्रिय, कावायकं

उक्तदरा ॥ धियुहर्यधलक्वा ढननानक, ७ मंखरा ॥ ॥ वदहिकीव भसदाहालयाक चूर्णु
याढ, मनवग्वउवा, नार्ध, हुतनस्यनमी १ दहिनलनयाहि ॥ ॥ गगपूषा, मनव, कुभुनि, दक
जील, चूयनका, सानवानस, लुंखकृय, [illegible]क्वाय दायकं, कोलाख ॥ ॥ गुडिकायियका मनवकर
सि०क्ष १, पूस्कनाम्नवकर, कंवयालकउ३, हुकयालेकउ३ लवंकउ३ जिसालकउ२ वमलायनकउ२
कंधयू १ स्यंध्माक १ हिंयकं ८३ ओषधिथान लाम ॥ चूर्णुयाढनयधलंट १ लंखटं ४ [illegible]
धनदाय ॥ दगमूल लंखननस्यं, का० दाय लंखथंवासक्तिकालनकट १ धलंख कापान [illegible]
थय, धलंसघलक्वाढन, जानायदायकं। याखवाकसिय, लंखदाव [illegible] नीव भसलन
व, वृषायनउ ॥ ॥ दलहाव, अधलक्वाहाव ॥ थडग्रस भानकं [illegible] ढलं १ [illegible] मावका नलीनसा

२खयल, कह्लय१ कस्तुरिमं३ कपूनमं३ कक्नामं३ लामं३ नव खाचमं३ नवछमं३
नाग्यकृ१ नकं पिकुयाक्ताया॥ ॥सानपूछि सन१ वृछपछि, वदियान, जुविनहा
सन१ दाकजुगिविहा सन१ अ्नदहासन१ ुसिमिहास१ सचलयाहंस१ सलस्वा
न, धर्मयाछिरनायालखपियसलछ॥ यालहासन१, वालखनकहासन१ निनियाल
हासन१ पानलिसियाहा सन१ गेहानिसिहास१ चक्रवतीहासन१ ग्यखालसन१
दिगलवनिसन१, लीकजुगिनी सन१ वनहानाहासन१ दनमूल॥ चक्र २०
सादूद २०॥ लवखाचला, यानक, नवछ, जीनस्वन जागीकार, गथवन ज

नामाति, नकि, कस्तुनि, वाल, कूट, सर्थी, कुकुमीदि, कपूर, स्हनकुंकुम, गनपुष्प
मनथि, छिरताकव४ धास॥ धमदनमूल॥ ॥लामं१ यानकमं१ मिदिसमं२
उनहामं२ आदनमं२ पियनिमं१ लवखाचमं१ खड्नमं१ कुद्विमितिमं२ नवा
नमं४ कस्तिनवाल नकमं२ नकपिहुन नवचिकूनाग तिधाउचीलिंन्व॥ ॥
पिंपनि, पूस्कनामूल, हलत, सुंठि, सथपि, कस्तुनी, स्मलाग ग्वद जानवाल
नकं, स्हनमासाकयाहिं॥ ॥मनच, पिंपनि सुंठि, हलत, पिम्ले, जीनि, स्मला
न, ग्वनजानवाल न, स्हनमासाकयाहिं॥ ॥ हनिपूवा, चिवा, नकं, यंनका
मंनर२ने

भसद्दन, नर्थ, ऊयिव॥ ॥अयामार्गयाद्द, श्री, स्वद्दन सिउन लंदास
थाले, सि, मिखीमखद, मिकद्रू, मिखास्याकद्दवर्थ॥ ॥धलिस्वानलो
मनच, लंखनद्दर्यतानकं, यंनथागद्दवख॥ ॥वला, घिमूनि, दिय
लि, हकाजाली, जीलि, नवा, कालमनि, सन्धू, उानवालेनकं, मावाबूवयानं
कोदवयानं, काथवयानं, नकं, साद्दसयानं, यंनम्याकायानं, लिंम्य॥ ॥
उदपूमं३ वद्मं३, हनउमं३, कलंडमं३ ऋंवनमं३, चनकहामं३ धिग
स्य

द्दलमं३, थाकमं३ क्रुतमं३ वमं३ वकुचिमं३ ८मतामं द्द१ थकन
कृत१ शूंनधनमलद्रूकद्दयानं, मलिकद्रूयानं, दवकूनाहि॥ ॥
जीनि, सता, मधनाद्दान, नवधूंतव, माद्दलदि, लंखननय, धलेविकूति
नवालावयाय, कद्रूयालिंम्य॥ ॥वाऊजूपी, लाहा, सिनामनि, लंख
नयाव, याय, दलवले, मंल, याय, सावकउिव, लिथ॥ ॥सिखालवा
लद्रूया, थूंयालद्रूथ द्दव, सिसद्माय, धर्मुथालया, नद्दकायाव, चकनसद्रूय

धीतकोदनयर्क, मिखाया धीतनग

मलिदकद्रूया, कद्रू, दनउावया

थकनयाथिइ॰ंमसति ङ्कुय, थकनथ्रून, थनतल, गाँमछवककुछव॥ ॥
ङ्कलसियाहल, छयाव॥ ननङ्किथालसल, घलन वालाव, याय, छलिकाक
कुछवहिं॥ ॥वठसिंथाल, वलंमन, यानाख, दुम्वलि, ठल्वाठ, लंखन
छय, ननङ्कि थालसलाव, घलन वालाव याय, घालश्ङ्किपाव, ङ्कि, मङ
क कङ्कस, ङ्किउलंख, लायूव, ककुछवहिं॥ ॥एला, लवङ, यनकमल, की
लसमनि, मग, वयंगु, कहन, शीखगु, पिंपलि स्म शाग, जुर्जुयाय, तारव

वङ्कि, ठाथवङ्कि, कङ्किनवालन, सुष्म, थान, थिङ्कुर्दि, ठिथाछयाँ
हिं॥ ॥थालसङ्दुस, पिंपलि, जुनन स्वायंभान, विकुथागछव॥ ॥
गुंठ, जनिनस, कहनी, वाला, कुलुजव स्मशानवनि ४ थूवाकसनागीस
स्वायंभान, ठिथायनजाजनथायंनगायंनाव॥ ॥पिंपलि, पियलामूल, सि
पि, वनकह, गुंथि, स्मशानङ्किशानश १ थाल, थन लंखन छयं घलकाठ ३
दुदुकाठ ४ लंखकाठ २ थमथलमून, थयागुल, याँनस्याकस, स्वसन थाक

याल. खदसँदल. अग्निमन्थस. ठलायानस. नमसावळय धनहनदा॥ इयू॥
॥ सिंधि. सस. मनच. पीपला. सुँठि. मभालस. नालीसी. जानिवँन लाचन. ज्वनक
हा. यानक. हकम्याल. लवंलाव. म्हलागमँन४ थ्वल. व तोकलं. धनजाउ
दा. सनस्योन्वया. कास. उसाया. सालँ२ यल्गमजा. श्लेष्म थाधिनाश॥ ॥
ठला. लवड. यलकम्. कालसिमनि. नवा. पयंनु. कहलि. प्रीस्वनु पिंपलि
साखन वक्कि. कक्लिस वालँन. उधाउयां वान. पिन. श्लेष्म धनवहि॥

पिंपलि. लवड. कहलि. साहान. म्हलाग कक्लिन वालँन॥ श्लेष्मया॥
मनच. पिपलि. सुंठि. हकम्याल. अनहन. लवँगलाच. अनि. दकअिलि
दलानँल. म्हलाग कक्लिन वालँन नान श्लेष्म पाहि॥ ॥ स्नादन. त्रिर
ला. निम्च. कमूवि. उठउ. खयनहि. थानसवति. क्विर२ लानमँ४ थाल. लँख
नभनायावक्विसनक. काठदाय. खच्याठमाउ भय॥ ॥ वठियालहा.
गजपिपलि. अयामार्ग. पिपलामुन. चकहा. लागिला. मूक्कवामूल. क्विर२

पिलया

ठलाधि,

गजुर्ष २ धाल, धद कृत १ जार्‍ १, कल्कि कृत २, दलत्र ध्वत २०० थिंपलि
कृत २ कल्किधून, लीख र्‍ ४ ॥ दूलालीर, कतुक, पृथ्विं खाजा, खाकन म्रू
दन, छ्किानन्नति ४ धाल, स्वादूलीखन ध्यिंमानक, नक, पिलयालिंग्व॥
यदूपिकदूधया॥ ॥ थाल ॐतुरव, याल, कछुनि, भिमनस, वलसयू, छ्का०
दाय॥ ॥ठला, दूकम्र, कालसमलि, मवा, पृथ्विंमु, कछलि, पीखछु, स्मलाग
मस ३ कल्किन यालीन, धन छ्काक आमाया ठलाधि॥ ॥ऊथवा, ध्ववादू, क

पिक्षकुयां,

धीनसाकया

हनि, कक्किलि, ङगहा, स्मलाग छ्क०दाध्यं, लीख, पवासछिवालनक
थाध्यं मास, कल्कि छ्कद्दनमानक, समक्लायाध्व, पिक्षकुयांकाबाव॥ ॥
मनव, थिंपलि, मु०, वनवि, वलस, कहनि, सधू, स्वाछ्कल, मुदिं, ऊज
मात, स्मलाग, छ्काकलीख, ञाध्यं, मानदन, पिदायनवव, धनसाकयाभ्रू
मीरिं॥ ॥ठलाजिलि, मनव पीखछु, साहन, खाकन, स्मलाग, स्वादूलस
दध्यं, सारवलस हर्स्यमानक, कलसया, लिंग्व॥ ॥ठलाजिलि, मनव भ्रा

खवबान, नायनय, कलसयाहिं॥ ॥कर्क्कनासि, मूलिनम, पिंपलि, कमलि समलागज्ञुयादन, कक्तिनवालंनक, सर्वरोगनास, नाक्षा, थवयूयानाम वोधिधाय॥ ॥मनव, पिंपनिःसूलाकुनेजालि, वला, चन्दन, समलाग॥ हलउ, वहल, अंवल, समलाग, कक्तिनवालंनक, थनववयाहिंअक॥ ॥हलउ, आनवालंनक, थनअक॥ ॥धलयाल, डिलिनसी, धलानवालंन, थीनकादवयाक्षियहिं॥ ॥दनमूलगनधन॥ थालहा, याल चनकहाग

लाविसिंहा, पानविसिंहा, मिनानीसिंहा, दाकंथगीविहा, लिकं०गिवि हा, लिं, दिमवतीहा, नमूकनहा, भमाल, धनसलाग, क्षि२नानयू २धालदयक, लंखहं१२दयकं, दमूनक्षाउन, का०दाय, लंखलनक हं४, कायदसथम कनलनक॥ यलहं१दयकं, नाग्रगवध॥ धाल्कनामू ल, गुंग०, थाध, कन्द, मनव, पिंपलि, सधि, समलाग, क्षि२नानयू२ हिंगुम १मं६, धमलंखनछसीं थवाग, धलका०काय, पामीतयालंख खना

वनय पाँ, बोधी, धनअक

६ नार्यं स्कादन यारन याग, धनङ काल नकं॥ थयागुल कोग, बोग ल्हेश्मप्रिय
रवन तसा, ङलासन कमतिङ्गार्भा, वातभागम लाति रिं॥ ॥त्रिकटु, अजमोद,
सैंधव, जीरि, हकूजीरि, स्वराग, गुं, हिंगु, कनायावाले, जायद, नकस, न, यल
कून वाले, जास थ्वन, थ्वीतथूर अज गुल्मशूल, वातव्याधिकस थवनाम॥ ॥काक
लेख संतव॥ ॥गुं१० मं७, पिपमं३ मरच मं४ लूयकाग मं३ लवं त्वारमं२, ७ लामं
१ वुर्जुयाय, नयवनस, सारवलवहि, उग्रवहि, नय गुल्मभागस अग्निमंदस

न यमसा, कष्टस, हि०२ ल्हेश्मशनगु लूंगेतमछिन॥ नागयाकं॥ ॥ वउसि
पालेहा, नाभिहा, अलगुहा, नकचवदने, रवाकन गुगु, कर्ष१, जेनस द्रव कर्ष१ क
ल्किङा१ सारवल अंश१ ङिलिमं२ लैंखतुर२॥ हरुलानाल्मलीनाम्ना॥ हरुला, दिग खवन
उष्णजल नहा, पारवयाय, कलिमाचकलं, वातडपिल हीन॥ ॥गुगु, मिम्व, ल्ह
हन, यलकमन, श्रीखण्ड, स्वराग, थ्यास हय, नमसाक, धनवल, डन नाग समकं॥
सारवभाग१, कटुकिनि, गा१ दायक, पिल ल्हेश्म जायनयलयलक्षान कर्हि॥ ॥

उकम्याल, कृपकणन, त्वाव, पानक, तालीसि, वंशलोचन, हक्वजिवि, जोन्हि, साहन
दानिवो, धनमंनथाल॥ पिपंलि, पिंपलामू, लिम्हि, चत्रकहा, ठु०मनच, पिम्पूनि
थूंहनिसि, सैंस, अजमाउ, अम्वगंध, वाले, थनकुर्ष १ थाल॥ किंवुसारवनद्व
४॥ चूर्णुयाङनसारवनथून, चूनंनमव, धयागुल, अग्निवाध, अजीजिवमासा
अनस, हन, कानकेल, थंरथाल, नागनासनारा॥ यकुर्पं, अग्निवाध, दनदयू
वर्लुरिनीव, नानाधि, विमकंक्विनि, नानानस, लम्बउमक्विल, कंधू, क्षूधू

गल, हिंग्वध, उभलाउ॥ अग्निदीपकचूर्णुधाय॥ ॥वाल १ उम्हाल १ धति
या १ श्रीखण्ड १ छ्किमाल १ गुड्गु १ मूगुलि १ कमलहा, छर्वं टीका १ थाल॥ का०च
सारवल, मंठ कक्विमेश्, हिंवलादि दयातु॥ ॥नकू४पिलया॥ ॥श्रीखण्ड, खयू
कहमी, मनच, मिदिसि, पानकवाल, खकन, पिंयलि, कर्कटासि, कृपकणव, उक
म्याल, लवङ्गाय, हलउ, विहलउ, अम्बर, पस्कनामूल, अतिषस, दुनालह
लवङ्ग, जिलि, वंशलोचन, तालीस, सारवन, ॥ सारवलचूर्ण॥ ॥तालीस, वंश

अग्निदीपक, नकलिकृष्ण

+ २ सारवलचूर्ण

नागविक, लोखवत्वृंत

चाचन, लवलाव, शुकम्याल, लवंद, मनच: पिंपलि, शुंठि, जिरि, पांक, ङग्रनवङ्किसा
लवङ्कि, नानपिकया॥ ॥ङह्ल, याल, धालखाला, वलपू, अूचप्, धनमङ्किन्वया
॥ ॥तालीसमंग, मनचकृ१ शुंठिकृ२ पिंपलिकृ४ धन्ख चाचनकृ१ अूकृ३ लवलाव
मेंन्लुलामंग, मायूसाखलद्कृ७१ हाखलयून॥ ॥मिच, थासदवति, मोडम, द
लजु, वद्ल, अूंपल, हकुजाल, मनचु, धनस्मलाग, व्हुड्याडवनसंख्वनलदनास॥
मेंस, चोंडुसिस, चलकल, लवह, संख्या, धनचाननलं नचान, खनलद नाम

ल:लुठि: का०१यः ताख पगुजा नमाये कः नानच्व वल्य
चनाव॥ ॥लुठि: देवदालु: ग्वतख्व दनें: लिं कस्वाक्व
लि: ओन क्वंकलाः ख्वगाः साद सदिः नक्वोवय: नकु
वि नह: [illegible] लनाम॥ ॥वछियालहः नागिंदः
[illegible] जि लजुहाः चकुवंदनः देवाकन
६०२ मा
२ मगवा गीचवा दददवद

ध्ख्नदनाग

तूक्लयाचवक्वाकल्खिवसज्ञाचावःउनकःवानःतृखदस
छेस्गंवलावकेःथनवसःथकनसःजग्निवामा॥ ॥
केउःथंवूलिःरकउःयमलिःथनकह्वःदेलतःयमस
ञासःस्ये थसःस्मलागःवृकृथःकाकलंषसहस्यमान
भाकस्यमरस्यीःथ्यंतस्यौ लंःथनपूनामःज्ञाग्निवाछरव
॥गुणिगधपलिमनमश्लेचन लवेक्लम३तवठनक्व

मंःखगमंःवृकृथेःथथेंःवरागयाःसवःनमङाजुव
छसावलःवषिफःउलवागसःजुग्रमदसःमसमासःछु
लिःदलिपञ्लेक्षुकलत्रूःजदमसछिलःथपव्नोमा॥
॥वृक्षगसुउतेउःपेनामवाबःदवदाउःजलतःप
नदलःकाथवायःनामःतथचूननःकुस्य॥ववधान
साकःडलःकडलस्याकःकडलस्यालःयकस्याल
थ्यंतस्याःथर२वनाम॥ ॥स्वाचखवावानःश्रीवकुःवा

१ ॐ नमश्रीगणेशाय नमः ॥ व लासियाजगः मनाठि
मिहः स्वरलि । क्षि २ मा नः सूत्र ४ आसीः कस्वाः मंक ल्वयाप
का ० दायस्वकलो पूव व ल स इद पूव ४ / सास्वस पू कुष ३
लस्व पूर ३० ४ व ल स्व पेथ्य याप [redacted] य वा ल छि वा पूर १४
कालिः साम वः इद लंग्व रस्वआः नावं कास्वे याय निलि
कुष १ पूा नवः दो लूखुायः न का व कुः आवकलंष ॥

२ कणः जूजमा तः स्यं आः ग जि ह कुा जे सिः थ प मू
लाग हेलि सूत्र माया वालं ध्वें वः चू नव वानाः गासथन
थान पूर आसे ज्ञम र लः वाना बिकस ः थूर नालः का
स्वलं अस पव ॥ (७) यू कणः ॐ म निः ग लि ष
न कलाः वि प जे यामलः स्यं आे मयलागः जाछि कृया ॥
॥ हि उलु लाछलाः ॐ ॥ दा स्यं वेः नमः ससवाग ॥